

# जाँच व एकांतवास सहायता भुगतान

यदि आप NSW में रहते हैं और आपको COVID-19 के हल्के लक्षण भी हैं, तो कृपया जाँच करवाएँ और नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने तक अलग रहें।

जब आप अपनी जाँच के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे/रही हैं या अगर कोई व्यक्ति जो जाँच करवाने के बाद एकांतवास कर रहा/रही है और आप उसकी देखभाल कर रहे /रही हैं काम पर नहीं जा सकते/ती तो आप सहायता के लिए पात्र हो सकते/ती हैं।

## आपको क्या जानने की आवश्यकता है:

जाँच(टेस्ट) और एकांत(आइसोलेट)सहायता भुगतान क्या है?

COVID-19 जाँच परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए आय कमाने में असमर्थ लोगों के लिए हर 30 दिनों में एक बार \$320 का भुगतान उपलब्ध है। इसमें दोनों शामिल हैं:

- 17 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक जिनमें COVID-19 लक्षण हैं
- किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने वाले या अभिभावक जिनमें COVID-19 के लक्षण हों

आप पात्र नहीं हैं यदि आप:

- घर से काम कर सकते/ती हैं या स्वयं- एकांतवास के दौरान कोई आय कमा सकते/ती हैं
- आपके पास बीमारी छुट्टी, देखभालकर्ता की छुट्टी या विशेष महामारी अवकाश है
- COVID-19 आपदा भुगतान या महामारी अवकाश आपदा भुगतान सहित सरकारी आय सहायता प्राप्त करते/ती हैं
- लघु -व्यवसाय अनुदान(माइक्रो-बिज़नेस ग्रांट) या जॉबसेवर भुगतान जैसी सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करते/ती हैं
- NSW हेल्थ द्वारा जाँच और एकांतवास के लिए निर्देशित किए गए हैं (हालांकि, आप COVID-19 आपदा भुगतान के लिए पात्र हो सकते/ती हैं)
- केवल शीघ्र प्रतिजन जाँच( रेपिड एंटीजन टेस्ट) करवाया है
- एक अधिकृत कर्मचारी हैं और हर 3 दिन के बाद आपको जाँच करवानी आवश्यक है।

आवेदन करने के लिए आपको क्या चाहिए:

- एक MyServiceNSW खाता – जिसे जब आप अपना आवेदन शुरू करते/ हैं तो बना सकते/ हैं
- आपकी COVID-19 जाँच का समय, तिथि और स्थान का विवरण (संदर्भ संख्या सहित)
- पहचान दस्तावेज़ का एक प्रमाण जैसे आपका ऑस्ट्रेलियाई ड्राइवर लाइसेंस या पासपोर्ट
- पते का प्रमाण जैसे किरायानामा (लीज़ एग्रीमेंट) या गैस-बिजली आदि( यूटिलिटी) के बिल
- रोज़गार या स्वरोज़गार का प्रमाण जैसे वेतन पर्ची, अनुबंध या नियोक्ता से पत्र
- भुगतान के लिए आपका बैंक खाता विवरण।

आपको अपना भुगतान कब मिलेगा?

पात्र श्रमिकों को उनके आवेदन के तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में \$320 का भुगतान किया जाएगा। आपको COVID-19 टेस्ट करवाने के सात दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने और अधिक जानकारी के लिए [service.nsw.gov.au](https://service.nsw.gov.au) पर जाएँ

यदि आपको दुभाषिण की सहायता चाहिए, तो कृपया 131 450 पर राष्ट्रीय अनुवाद और दुभाषिया सेवा को कॉल करें, और उन्हें सर्विस NSW से संपर्क करने के लिए कहें।

> इसका प्रसार रोकने में हमारी मदद करें